



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4576]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 19, 2018/कार्तिक 28, 1940

No. 4576]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 19, 2018/KARTIKA 28, 1940

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर 018

का.आ. 5796 (अ).— 17.08.2006 को अधिसूचित तथा 16.05.2016 को यथासंशोधित मुख्य वैद्युत निरीक्षक और वैद्युत निरीक्षक की अर्हता, शक्ति और कार्य नियमावली, 2006 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 162 की उपधारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा श्रीमती नीलम चंद्रा, महाप्रबंधक (वैद्युत), महा-मैट्रो को इस अधिसूचना की तारीख से महाराष्ट्र मैट्रो रेल कारपोरेशन लि. (महा-मैट्रो) में उनके कार्यकाल तक, उपर्युक्त नियम में उल्लिखित अर्हता और शर्त को पूरा करने के अद्यधीन पुणे मैट्रो रेल परियोजना के लिए वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त करती है।

उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारी, समय-समय पर यथासंशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम, 2010 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार, पुणे मैट्रो रेल परियोजना के अधिकार वाले क्षेत्रों में प्रचालनाधीन सभी वैद्युत कार्यों, वैद्युत संस्थापनाओं तथा वैद्युत रोलिंग स्टॉक अथवा पुणे मैट्रो रेल परियोजना के नियंत्रणाधीन/पुणे मैट्रो रेल परियोजना से संबंधित कार्यों तथा वैद्युत संस्थापनाओं के संबंध में अधिकारों का प्रयोग करेंगे और अपना कार्य निष्पादित करेंगे।

पुणे मैट्रो रेल परियोजना यह सुनिश्चित करेगा कि श्रीमती नीलम चंद्रा पुणे मैट्रो रेल परियोजना में उन्हें महाप्रबंधक (वैद्युत) के रूप में दिये गये कार्यों के संबंध में मुख्य वैद्युत निरीक्षक नहीं होंगी।

वैद्युत निरीक्षक के रूप में नियुक्त अधिकारी वह प्रशिक्षण लेंगे जिसे केंद्र सरकार इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे तथा ऐसा प्रशिक्षण सरकार की संतुष्टि के स्तर तक पूरा किया जाएगा।

[फा.सं.-42/5/2016-आरएण्डआर]

घनश्याम प्रसाद, मुख्य अभियंता (आरएण्डआर)

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th November, 2018

S.O. 5796 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 162 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) read with Qualifications, Powers and Functions for Chief Electrical Inspector and Electrical Inspectors Rules, 2006 notified on 17.8.2006 and as amended on 16.05.2016, the Central Government hereby appoints Smt. Neelam Chandra, General Manager (Electrical), Maha-Metro as Chief Electrical Inspector for Pune Metro Rail Project, from the date of this Notification till her tenure in Maharashtra Metro Rail Corporation Ltd. (Maha-Metro), subject to fulfilment of the qualification and Condition mentioned in the above Rule.

The above mentioned officer shall exercise the powers and perform her functions in respect of electrical works, electrical installations and electrical rolling stock in operation within the areas occupied by the Pune Metro Rail Project or in respect of works and all electrical installations under the control of Pune Metro Rail Project/belonging to Pune Metro Rail Project as per the procedure provided in Central Electricity Authority (Measures relating to Safety and Electricity Supply) Regulations, 2010, as amended from time to time.

Pune Metro Rail Project will ensure that Smt. Neelam Chandra will not be the Chief Electrical Inspector in respect of the work assigned to her as General Manager (Electrical) in Pune Metro Rail Project.

The person appointed as Electrical Inspector shall undergo such training as the Central Government may consider necessary for the purpose and such training shall be completed to the satisfaction of the Government.

[F.No.-42/5/2016-R&R]

GHANSHYAM PRASAD, Chief Engineer (R&R)